



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं० पटना 508) पटना, बुधवार, 12 जून 2024

सं० 27/आरोप-01-101/2021 सा0प्र0—4993

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

21 मार्च 2024

श्री राजेश कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 701/2011, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी बन्दोवस्त, खगड़िया—सह—जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—5011 दिनांक—24.11.2021 एवं पत्रांक—1583 दिनांक—01.04.2022 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ।

2. श्री कुमार के विरुद्ध इनके पदस्थापन अवधि में मेसर्स माँ लक्ष्मी राईस मिल, बेगूसराय से बैंक गारंटी नहीं ली गयी तथा Deed of Pledge नियमानुकूल नहीं रहने के कारण प्रमादी मिलरों के द्वारा जमा नहीं किये गये सी०एम०आर० समतुल्य राशि की वसूली नहीं की गयी, जिसके कारण निगम को मो०—38,78,734.00 (अड़तीस लाख अठत्तर हजार सात सौ चौतीस) रुपये की आर्थिक क्षति हुई है।

3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक—9586 दिनांक—15.06.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण दिनांक—17.11.2022 प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार द्वारा स्वयं के ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया गया है।

4. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1876 दिनांक 25.01.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

5. आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 10547 दिनांक 30.12.2023 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को आंशिक प्रमाणित बताया गया है। आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर विभागीय पत्रांक 1131 दिनांक 19.01.2024 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा पत्रांक 136 दिनांक 07.02.2024 द्वारा अपना बचाव अभिकथन समर्पित किया गया।

6. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/बचाव बयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Deed of Pledge में वर्णित भूखण्डों का मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित मिलरों से प्राप्त

किया गया था, जिसकी सत्यता की जांच तत्समय आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं कर एकरारनामा किया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रक्रियागत चूक हुई है तथा इस आरोप प्रकरण में वित्तीय अनियमितता भी परिलक्षित है। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथा संशोधित नियमावली, 2005 के नियम, 14 (iv) के संगत प्रावधानों के तहत दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 701/2011, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी बन्दोवस्त, खगड़िया-सह-जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथा संशोधित नियमावली, 2005 के नियम, 14 (iv) के संगत प्रावधानों के तहत दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्र नाथ चौधरी,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 508-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>